.....and is/was under treatment

## प्रमाण-पत्र 'ख'/certificate 'B'

(उन रोगियों के मामले में भरा जाए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया हो) (To be completed in the case of patients who are admitted to hospital for treatment)

				milited to mospital for trouview,		
अपाठीकावी के 160 भी/पुत्र/पुत्री श्री	<sup></sup> में नियुक्त श्री	मिती/श्री	/कुमार	ा को दिया ग	या प्रमाण-पत्र।	
गी/पुत्र/पुत्री श्री				distribution of the second		
Certificate granted to Mrs./Mr./Miss				***************************************		
ployed in the					entarjahananan. P	
				and to tevologe visited an entitled on	a nottettuaneo	
(end2 on to bonto noteM synctricin) (अस्पताल में रो	गी के प्रभारी नि	चेकित्सा	अधिका	री द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)	equired under	
(To be signed में, डाo	by the Medical C	Omicer-in-	<sub>न्य</sub>	of the case at the hospital)		
क्ष्म में, डा॰ १५१०माम् १५७ममा १ १४१म	FIR MINISTRA		\$41	hereby certify :—		
was and a support book and public england and h						
(क) कि रोगी को				··के परामर्श/मेरे परामर्श से अस्पताल	में भर्ती किया गय	॥ था ;
(चिकित्स	ग अधिकारी क	ा नाम)	and a			
(a) That the patient was admitted to hospita	al on the advice	of		(Name of the Medical Officer)	/on my a	idvice;
(ख) कि रोगी इलाज के लिए					र कि इस संबंध	में मेरे
(ख) कि रोगी इलाज के लिए	को जेजी की वा	ਕਰ ਮੈਂ ਹ	धार त्या	ने के लिए/गंभीर रूप से खराब होने से	रोकने के लिए अ	 मिवार्य
द्वारा नुरख में दो गई।नम्नालाखत आप	भिष्ठ रागा का हा	ભાવન પુ		सुरुप्रकृति व्यक्ति । स्टब्स्य । अस्पाता	न में प्राइवेट रोगि	ायों को
था, य आपचे कि क्षित्रकार करा है नि	(अस्पाताल			The state of the service of the serv	sen and test will pro-	
हेर्न के लिए स्टाक नहीं की जाती और	त्समें ये पेटेंट	(एकायत	त) योग	शामिल नहीं हैं जिनके लिए समान चिर्व	केत्सा मान के सर	ते द्रव्य
उपलब्ध हैं। न ही वे योग जो मलत	: खाद्य, श्रंगार	सामग्री 3	, नथवा रि	ने:संक्रामक हैं ;		
(b) That the natient has been under treatme	ent at					and that
the undermentioned medicines prescri	bed by me in thi	is connec	tion we	re essential for the recovery/prevention	of serious deterior	ation in
the condition of the patient. The medici	nes are not stoc	ked in the	<b></b>			
				Complete advete nationts and		me of
				for supply to private patients and	do not include pro	prictary
the Hospital)	noon of equal th	eraneutic	c value	are available nor preparations which are	primarily foods, to	oilets or
disinfectants;	nces of equal ti	icrapeum	o value			
औषधों का नाम	कीम	त	117772	औषधों का नाम	कीम	
Name of Medicines	Pric	е	1 Sup	Name of Medicines	Price  ₹o/Rs.	e पै०/P
Political Control of the Control of	रु०∕Rs.	Ф∘/Р.			1 7 7.0	
1. httigeuit			7.			
2. In all the 5 thy 4 kills of the		o bas uddi i i i	8.	क्रमान कर प्राची के कारण है की की है		in the second
3. To be held for the special section of the sectio			9.		ones and test value	o i
4.		Dimisin	10.	og and sold tellerbailes encolatively interplantin	SH slow believe	r Period 3
5			11.			F-18 9638
6.			12.			pyfy
	0-yor -> 0-	0) / (5	513			911
(ग) कि दिए इंजेक्शन रोगक्षमता या रोग (c) That the injections administered were	Mere not for im	थ/नहा munising	or prop	hylactic purposes;		
(c) That the injections administered were. (घ) कि रोगी		से	पीडित	है/था और		र

(d) That the patient is/was suffering from.....

(=)	कि जिन एक्सरे प्रयोगशाला जांच आदि के लिए	
(8.)	थे और वे मेरी सलाह से	रुपय खच किए थ व आवश्यव
	[1] S. H.	어느는 그들은 사용하는 회에들의 경찰 바로 그는 사용이 되었다. 그 아이들은 사용이 가장 하는 것이 없는 것이 되었다. 그는 사용이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.
(0)	(अस्पताल या प्रयोगशाला	
	That the X-Ray, Laboratory test, etc., for which an expenditure of Rswere necessary and were undertaken on my advice at	
		me of Hospital or Laboratory)
(=r) ·	कि मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डा॰	
(च)	और	क पास भंजा था
	(राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी का न	ПН)
	अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया था।	
	That I referred the patient to Drconsultation and that the necessary approval of the	
		the Chief Administrative Medical Officer of the State)
	required under the rules, was obtained.	Sant is the European
	osi Officer in-Charge of the dese at the nespital)	
	- भू गिर्म भूगिमा छात्र कारह ः अस्	स्पताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
	— yilinso (dentiti)	और पदनाम
		Signature and Designation of the Medical Officer-in-Charge of the case at the Hospital
	किस में अवस्थात में प्रसाद के किसी	क विर्वास
	भाग 'ख'/PART '	RIBINE INTERIOR
	(Name of the Medical Officer)	Pis bit on lating on the part were self-the troubled out text (in)
11.	पाणित करता र कि रोगी रचाच के चित्र	थ्याताल में उटा है और कि विशेष
में प्रग	माणित करता हूं कि रोगी इलाज के लिए	जारनताल न रहा ह जार पर पराप
मैं प्रग परिचारिकाउ	ओं को जिन सेवाओं के लिए	क्रपये खर्च किए गये थे, देखिए
परिचारिकाउ	ओं को जिन सेवाओं के लिए	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए
परिचारिकाउ संलग्न बिल	भों को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब	रूपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi	ओं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं। hospital and that the
परिचारिका3 संलग्न बिल I certi service of th	भों को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं। hospital and that the was incurred, vide bills and
परिचारिका3 संलग्न बिल I certi service of th	भों को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs.	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं। hospital and that the was incurred, vide bills and
परिचारिका3 संलग्न बिल I certi service of th	भों को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs.	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं। hospital and that the was incurred, <i>vide</i> bills and the condition of the patient.
परिचारिका3 संलग्न बिल I certi service of th	ओं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs ached. were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं।
परिचारिका3 संलग्न बिल I certi service of th	ओं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs ached, were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं। hospital and that the was incurred, vide bills and the condition of the patient. यताल में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Medical Officer-in-Charge of the case
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	ओं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs ached, were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थीं।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	ओं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। 
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। 
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी। 
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	आं को जिन सेवाओं के लिए तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs. ached, were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in  अर	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta	अों को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs. ached, were essential for the recovery/prevention of serious deterioration in  अर  प्रतिहरताक्षरित/counte  चिकित्सा अधीक्षक  Medical Superintende	रुपये खर्च किए गये थे, देखिए होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta सुविधाएं दी	आं को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta मैं प्रम सुविधाएं दी I certif	तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta मैं प्रम सुविधाएं दी I certif	आं को जिन सेवाओं के लिए  तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the he special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta मैं प्रम सुविधाएं दी I certif	तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta I certif facilities prov	तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta I certif acilities prov स्थान	तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।
परिचारिकाउ संलग्न बिल I certi service of th receipts atta I certif acilities prov	तथा रसीदें, वे रोगी की हालत को ठीक करने/गंभीर रूप से खराब ify that the patient has been under treatment at the special nurses for which an expenditure of Rs	होने से रोकने के लिए अनिवार्य थी।

N.B. :---Certificates not applicable should be struck off. Certificate 'd' is compulsory and must be filled in by the Medical Officer in all cases. प्रभासमुटेकोल/MGIPTKoI-3 Civil/2008-09-(C-3)-14-05-10-3,00,000.